



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 207) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

16 मार्च 2020

सं0 वि०स०वि०-02/2020-520/वि०स०।-“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 16 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव, बिहार विधान सभा।

[वि०स०वि०-03/2020]

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत-गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2020 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक सदस्य।

पटना

दिनांक 16.03.2020

सचिव

बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 207-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>